

शहरी आग आपदा प्रतिक्रिया

पृष्ठभूमि:

शहरी आग में शामिल हैं, विकसित क्षेत्रों में अनियंत्रित रूप से आग लगना। इस तरह की घटनाएँ गंभीर चोट पहुँचा सकती हैं, मौत का कारण बन सकती हैं और समाज को गंभीर वित्तीय नुकसान पहुँचा सकती हैं।

शहरी आग से पहले:

आग लगने की स्थिति में आप अपनी, अपने परिवार और अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं:

धुआँ अलार्म

- धुएँ के अलार्म स्थापित करें। ठीक तरह काम करने वाले धुएँ के अलार्म आग में मरने के अवसरों को आधा कर सकते हैं।
- अपने घर के हर तल पर धुएँ के अलार्म लगाएँ। उन्हें बेडरूम के बाहर छत पर या ऊँची दीवार पर (छत से 4-12 इंच ऊपर), खुली सीढ़ियों के शीर्ष पर, या बंद सीढ़ियों के तल पर तथा रसोई-घर के पास (लेकिन भीतर नहीं) लगाएँ।
- महीने में एक बार धुएँ के अलार्म की जाँच और सफ़ाई करें तथा साल में कम से कम एक बार बैटरियाँ बदल दें। हर 10 वर्ष में एक बार धुएँ के अलार्म बदलें।

आग से बचना

- अपने परिवार के साथ बचाव मार्गों का पुनरावलोकन करें। प्रत्येक कमरे से भागने का अभ्यास करें।
- सुनिश्चित करें कि खिड़कियाँ कीलबंद या पेंट से बंद नहीं की गई हैं। सुनिश्चित करें कि खिड़कियों पर सुरक्षा जालियों में आग सुरक्षा खोलने की सुविधा मौजूद है ताकि वे अंदर से आसानी से खुल सकें।
- यदि आपके निवास में एक से अधिक तल हैं तो सीढ़ी से भागने पर विचार करें, और सुनिश्चित करें कि चोर सलाखें और अन्य चोरी-रोधी तंत्र जो बाहर की ओर से खिड़की में प्रवेश को रोकते हैं, अंदर से आसानी से खुलते हों।
- आग से बच कर भागते समय अपने परिवार के सदस्यों को ज़मीन पर झुके रहना सिखाएँ (जहाँ हवा आग में सुरक्षित होती है)
- भंडारण वाली जगह साफ़ करें। पुराने समाचार पत्र और पत्रिकाओं जैसा कबाड़ इकट्ठा न होने दें।

ज्वलनशील पदार्थ

- पेट्रोल, बेन्ज़ीन, मिट्टी का तेल, या इसी तरह के ज्वलनशील तरल पदार्थों का घर के अंदर कभी उपयोग न करें।



शहरी आग आपदा प्रतिक्रिया

- ज्वलनशील तरल पदार्थों को अच्छे हवादार भंडारण स्थलों पर अनुमोदित कंटेनरों में रखें।
- ज्वलनशील तरल पदार्थ के पास कभी धूम्रपान न करें।
- ज्वलनशील तरल पदार्थ में भिगोए गए चिथड़ों या सामग्री को उनके उपयोग के बाद फेंक दें। उन्हें किसी धातु के कंटेनर में घर से बाहर सुरक्षित रूप से फेंकें।
- चिमनियों को इन्सुलेट करें और उनके ऊपर चिंगारी रोकने वाले ढक्कन रखें। चिमनी को छत से कम से कम तीन फुट ऊपर होना चाहिए। चिमनी के ऊपर और आस-पास लटकने वाली शाखाओं को हटाएँ।

हीटिंग स्रोत

- वैकल्पिक हीटिंग स्रोतों का उपयोग करते समय सावधान रहें।
- अपने समुदाय में केरोसिन हीटर का उपयोग करने की वैधता के संबंध में अपने स्थानीय अग्निशमन विभाग से संपर्क करें। सुनिश्चित करें कि केरोसिन हीटर बाहर भरे जाते हैं, और उनका ठंडा होना सुनिश्चित करें।
- हीटर को ज्वलनशील सामग्री से कम से कम तीन फुट दूर रखें। सुनिश्चित करें कि फर्श और आस-पास की दीवारें उचित रूप से इन्सुलेट की गई हैं।
- आपकी यूनिट के लिए नामित ईंधन का ही प्रयोग करें और निर्माता के निर्देशों का पालन करें।
- राख को किसी धातु के कंटेनर में और अपने निवास से दूर स्टोर करें।
- खुली लपटों को दीवारों, फर्नीचर, परदे, और ज्वलनशील वस्तुओं से दूर रखें।
- भट्टी के सामने एक स्क्रीन रखें।
- किसी प्रमाणित विशेषज्ञ द्वारा हर साल हीटिंग यूनिटों का निरीक्षण और सफाई करवाएँ।

माचिस और धूम्रपान

- माचिस और लाइटर को बच्चों से दूर, ऊँची जगह पर, यदि संभव हो, तो तालाबंद कैबिनेट में रखें।
- बिस्तर में या जब उर्नीदापन हो या दवाई ली हो, तो धूम्रपान कभी न करें। धूम्रपान करने वालों को गहरा, मज़बूत ऐशट्रे उपलब्ध कराएँ। फेंकने से पहले सिगरेट और सिगार के बचे टुकड़ों को पानी में बुझाएँ।

बिजली के तार

- किसी इलेक्ट्रिशियन द्वारा अपने घर के बिजली के तारों की जाँच करवाएँ।
- अस्त-व्यस्त या खुले तारों या ढीले प्लगों के लिए एक्स्टेंशन कॉर्ड का निरीक्षण करें।
- सुनिश्चित करें कि आउटलेट में कवर प्लेटें लगी हैं और कोई नंगी तारें नहीं हैं।
- सुनिश्चित करें कि गलीचों के नीचे, कील के ऊपर या अधिक यातायात वाले क्षेत्रों में तार नहीं हैं।



शहरी आग आपदा प्रतिक्रिया

- एकस्टेंशन कॉर्ड या आउटलेट पर ज़्यादा भार न डालें। यदि आपको दो या तीन उपकरणों को प्लग करने की ज़रूरत है, तो चिंगारियाँ और शॉर्टसर्किट रोकने के लिए बिल्ट-इन सर्किट ब्रेकर सहित UL-अनुमोदित यूनिट लगवाएँ।
- सुनिश्चित करें कि इन्सुलेशन नंगे बिजली के तारों को नहीं छू रहा है।

अन्य

- अपने दरवाज़े बंद करके सोएँ।
- अपने घर में A-B-C-टाइप का अग्निशामक लगाएँ और परिवार के सदस्यों को उसके उपयोग का तरीका सिखाएँ।
- अपने घर में एक स्वचालित रूप से आग बुझाने वाला यंत्र लगाने पर विचार करें।
- अग्नि सुरक्षा और रोकथाम के लिए अपने स्थानीय अग्निशमन विभाग से अपने निवास का निरीक्षण करने के लिए कहें।

शहरी आग के दौरान:

यदि आपके कपड़ों में आग लग जाती है, तो आपको चाहिए कि:

- रुकें, कपड़े उतारें और लुढ़कने लगे - जब तक कि आग बुझ न जाए। भागने से आग और भी तेज़ी से जलने लगती है।

आग से बचने के लिए आपको चाहिए कि:

- बंद दरवाज़ों को खोलने से पहले जाँच करें कि क्या वे गरम हैं। यदि आप बंद दरवाज़े के माध्यम से बच कर निकल रहे हैं, तो दरवाज़ा खोलने से पहले, दरवाज़े के ऊपरी हिस्से, दस्ते, दरवाज़े और दरवाज़े के फ्रेम के बीच दरार को अपने हाथ के पिछले हिस्से से महसूस करें। गरमी जाँचने के लिए अपनी हथेली या उँगलियों का उपयोग कभी न करें - उन हिस्सों के जलने से आग से बच कर भागने (यानी सीढ़ियों के उपयोग और रेंगने) की आपकी क्षमता प्रभावित होगी।

गरम दरवाज़ा	ठंडा दरवाज़ा
<ul style="list-style-type: none">□ ना खोलें।□ खिड़की से बाहर निकलें।□ यदि आप बच कर भागने में असमर्थ हैं, तो खिड़की के बाहर सफ़ेद या हल्के रंग की चादर लटकाएँ, ताकि आग बुझाने वालों को आपकी उपस्थिति की चेतावनी मिले।	<ul style="list-style-type: none">□ धीरे-धीरे खोलें और सुनिश्चित करें कि आग और/या धुआँ आपके भागने के मार्ग को अवरुद्ध नहीं कर रहा है।□ यदि आपके भागने का मार्ग अवरुद्ध है, तो तुरंत दरवाज़ा बंद कर दें और खिड़की जैसे वैकल्पिक बचाव मार्ग का उपयोग करें।□ यदि रास्ता साफ़ है, तो तुरंत दरवाज़े से बाहर निकलें और उसे अपने पीछे से बंद करते जाएँ।□ रेंगने के लिए तैयार रहें। धुआँ और गर्मी ऊपर



शहरी आग आपदा प्रतिक्रिया

बढ़ सकता है। हवा फ़र्श के निकट साफ़ और ठंडी होती है।

- बाहर निकलते समय किसी धुँ से नीचे रेंगते जाएँ – भारी धुआँ और जहरीली गैसें पहले छत पर एकत्रित होती हैं।
- आग के फैलने में देरी करने के लिए, बच कर निकलते समय अपने पीछे दरवाज़े बंद करते जाएँ।
- आप जब सुरक्षित रूप से बाहर निकल जाएँ, तो बाहर ही रहें। दुबारा प्रवेश न करें। 9-1-1 को कॉल करें।

शहरी आग के बाद:

आग लगने के बाद विभिन्न परिस्थितियों के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश हैं:

- यदि आप आग में झुलसे पीड़ितों के साथ हैं या आप स्वयं ही आग के शिकार हुए हैं, तो 9-1-1 पर कॉल करें; शांत बनें रहें और आग की चोट को ढक दें ताकि अतिरिक्त चोट या संक्रमण की संभावना कम की जा सके।
- किसी क्षतिग्रस्त भवन में प्रवेश करते समय, यदि आपको आग या धुँ का पता चलता है, तो तुरंत खाली करें।
- यदि आप किरायेदार हैं, तो मकान मालिक से संपर्क करें।
- यदि आपके पास सुरक्षा या स्ट्रांग बॉक्स है, तो उसे खोलने की कोशिश न करें। वह कई घंटों तक तीव्र गर्मी धारण कर सकता है। यदि बॉक्स को ठंडा होने से पहले खोला जाता है, तो अंदर रखी वस्तुओं में आग की लपटों से विस्फोट हो सकता है।
- यदि आपको अपना घर छोड़ना पड़े, क्योंकि भवन निरीक्षक का कहना है कि भवन असुरक्षित है, तो आपकी अनुपस्थिति के दौरान आपकी संपत्ति पर निगरानी रखने का काम किसी को सुपुर्द करें।



कोलम्बिया गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट
निर्माता:
होमलैंड सेक्यूरिटी एंड एमर्जेंसी मैनेजमेंट एजेंसी (HSEMA)



पिछला संशोधन: नवंबर, 2011